

तुरंत रिलीज के लिए

## **ब्रैम्पटन ने, विकास को आगे बढ़ाने और सिटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उचित फेडरल और प्रोविंसियल फंडिंग की हिमायत की**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 मार्च, 2021) – शुक्रवार, 12 मार्च को, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), ब्रैम्पटन के एम.पी. (MPs) और एम.पी.पी. (MPPs) के साथ वर्चुअल तौर पर मुलाकात करेंगे, जिसमें वे विकास को आगे बढ़ाने और सिटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, मुख्य प्राथमिकताओं की हिमायत करेंगे।

कोविड-19 (COVID-19) महामारी ने, हेल्थ केयर, ट्रांज़िट और आर्थिक बहाली जैसी, ब्रैम्पटन की मुख्य प्राथमिकताओं के महत्व में वृद्धि की है। फेडरल और प्रोविंसियल पूर्व-बजट मशविरों के द्वारा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निकट साझेदारियों और सहयोग की मांग करते हुए, सिटी की तत्काल और लंबी-अवधि की जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए, समय पर और उचित फंडिंग की हिमायत कर रही है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने हाल ही में, 2021 के अंत तक सेफ रीस्टार्ट एग्रीमेंट (Safe Restart Agreement) की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सिटी, म्युनिसिपल ट्रांज़िट सिस्टमों की मदद के लिए, अतिरिक्त फंडिंग में 150 मिलियन डॉलर की हाल ही की प्रोविंसियल घोषणा की प्रशंसा करती है। इसके परिणामस्वरूप, म्युनिसिपल्टीज के पास अभी भी, केस-दर-केस आधार पर ग्रांट किए, दिसम्बर 2022 तक के विस्तारों के साथ, 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 650 मिलियन डॉलर उपलब्ध हैं।

2020 में सुरक्षित की गई फेडरल फंडिंग के आधार पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, नौकरियां पैदा करने और ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने के लिए, कार्यनीति वाले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांज़िट प्रोजेक्ट्स में निवेश का अनुरोध कर रही है, जैसे एक नई ट्रांज़िट देखभाल और स्टोरेज फैसिलिटी, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन और जीरो निकासियों वाला फ्लीट।

बाकी ओनटैरियो के मुकाबले, ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतराल को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की सेवाओं के लिए तत्काल प्रोविंसियल फंडिंग बेहद जरूरी है, इन सेवाओं में शामिल हैं: बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य में वृद्धि; कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम; होम केयर; और ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल (Brampton Civic Hospital) और पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) में अस्पताल सेवाएं।

700,000 से अधिक निवासियों के साथ, ब्रैम्पटन, विविध और तेज़ी से बढ़ने वाली अबादी वाला, कैनेडा का नौवां सबसे बड़ा शहर है। टेक्नोलॉजी और नवीनता-संचालित इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, नौकरी में वृद्धि के लिए, कौशल का विकास, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की मुख्य प्राथमिकता है।

पूर्व-बजट प्रस्तुतियों की झलकियों में शामिल हैं:

- ब्रैम्पटन में "अस्पताल के गलियारे में इलाज" को समाप्त करने के लिए तत्काल और उचित प्रोविंसियल हेल्थ केयर फंडिंग
- डाउनटाउन ब्रैम्पटन को अनलॉक करने और स्थिर वृद्धि व विकास में मदद करने के लिए, रिवरवॉक (Riverwalk) के लिए

**प्रोविंसियल फंडिंग**

- इलेक्ट्रिक ट्रांज़िट वाहनों के लिए, तीसरी ट्रांज़िट देखभाल और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए फेडरल फंडिंग
- क्वीन स्ट्रीट बी.आर.टी. (Queen Street BRT) प्रोजेक्ट में निवेश करके, एक इंटर-रीजनल, उच्च-ऑर्डर ट्रांज़िट नेटवर्क के लिए मदद
- हुरोन्टैरियो-मेन स्ट्रीट एल.आर.टी. (Hurontario-Main Street LRT) विस्तार में निवेश, जब पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन पूरा किया जा रहा है
- गो ट्रांज़िट (GO Transit) रेल विस्तार को तेज़ करना और मेट्रोлинक्स (Metrolinx) के साथ पूरे दिन की, टू-वे सेवा के लिए फंडिंग
- ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी एक्ट (Brampton University Act) पास करके, BramptonU स्थापित करने के लिए प्रोविंसियल कानून और पोस्ट-सेकंडरी शिक्षा और जरूरी इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

पूर्व-बजट प्रस्तुतियां पढ़ने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

**हवाले**

“हमारे सरकारी साझेदारों के साथ बढ़ा हुआ सहयोग, हमारी सामूहिक बहाली में मदद करेगा। कोविड-19 महामारी ने, बाकी ओन्टैरियो के मुकाबले, ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतराल को पूरा करने के लिए, समय पर और उचित फंडिंग की बेहद जरूरी आवश्यकता में वृद्धि की है। इस कारण, हम हमारी विकासशील आबादी के लिए नए एक्यूट केयर अस्पताल और मेडिकल स्कूल के लिए प्रांत की हिमायत करेंगे।

साथ ही, हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि हमारे पास सुलभ और स्थिर पब्लिक ट्रांज़िट है। हम यह उजागर करते हुए, हमारे फेडरल साझेदारों को इस जरूरत के बारे में बताएंगे कि, ब्रैम्पटन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, ट्रांज़िट देखभाल और स्टोरेज फैसिलिटी के इलेक्ट्रिफिकेशन में उनका सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन की आबादी, देश के सबसे अधिक युवाओं वाली और विविध आबादी में से एक है। जी.टी.एच.ए. टेलेंट पूल और मार्किटों तक आसान पहुंच, विकास योग्य ज़मीनों की उपलब्धता के मेल के साथ, इनोवेशन कॉरिडोर के साथ केंद्र में स्थित होने के कारण हमारा शहर, कारोबारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे शहर के लिए, ओन्टैरियो के लिए, और कैंनेडा के लिए इस नए दशक को पुनर-परिभाषित करने के लिए, हमारे फेडरल और प्रोविंसियल साझेदारों के साथ साझेदारी जारी रखने के लिए उत्साहित है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने



## Media Release

के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)